

कार्यालय पुलिस अधीक्षक जनपद गोण्डा दिनांक 29.01.2023

शांतिभंग की आशंका के मद्देनजर पुलिस द्वारा की गयी कार्यवाही-

जनपदीय पुलिस द्वारा विभिन्न मामलो में शान्ति भंग की आशंका के मद्देनजर जनपद के विभिन्न थानों से कुल-13 व्यक्तियों को अन्तर्गत धारा-151/107/116 सीआरपीसी में गिरफ्तार कर चालान न्यायालय किया गया तथा भारी से भारी जमानत मुचलके से पाबन्द कराया गया।

04 वारंटी अभियुक्त गिरफ्तार-

गोण्डा पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशन में चलाए जा रहे वारंटी अभियुक्तों की गिरफ्तारी के अभियान में जनपद गोंडा के थाना को० नगर पुलिस ने 02 व थाना तरबगंज पुलिस ने 02 वारंटी अभियुक्तों को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय खाना कर दिया गया।

अवैध शराब के निष्कर्षण, बिक्री व परिवहन के विरुद्ध जनपदीय पुलिस द्वारा की गई कार्यवाही-

01. थाना मनकापुर पुलिस द्वारा की गयी कार्यवाही-

01. सुमन देवी पत्नी करिया सोनकर निवासी ग्राम महुआडीह थाना मनकापुर जनपद गोण्डा के कब्जे से 10 ली० अवैध कच्ची शराब बरामद कर मु०अ०सं०- 53/23, 02. कचना देवी पत्नी राकेश सोनकर निवासी महुआडीह थाना मनकापुर जनपद गोण्डा के कब्जे से 10 ली० अवैध कच्ची शराब बरामद कर मु०अ०सं०-54/23, धारा 60 आबकारी अधि० के तहत अभियोग पंजीकृत कर कार्यवाही की गयी।

सराहनीय कार्य
प्रेस नोट
मीडियासेल, जनपद गोण्डा
दिनांक 29.01.2023

जालसाजी करने के 02 वांछित अभियुक्त गिरफ्तार-

पुलिस अधीक्षक गोण्डा आकाश तोमर ने अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के तहत वांछित/प्रकाश में आए अभियुक्तों की जल्द से जल्द गिरफ्तारी करने हेतु जनपद के समस्त प्रभारी निरीक्षक/थानाध्यक्षों को कड़े निर्देश दिए थे।

उक्त निर्देश के क्रम में थाना को0नगर पुलिस द्वारा अपर पुलिस अधीक्षक शिवराज के पर्यवेक्षण में जालसाजी करने के 02 वांछित अभियुक्तों गिरफ्तार कर लिया। दिनांक 29.01.23 को वादी अब्दुल गफ्फार पुत्र अब्दुल जब्बार नि0 उज्जैनी कला दर्जी पुरवा धानेपुर गोण्डा के तहरीर पर थाना कोतवाली नगर गोंडा में मु0अ0सं0 346/22 धारा 419/420/467/468 /471 आईपीसी व 120 बी भादवि0 थाना कोतवाली नगर गोंडा पंजीकृत कराया गया था। जिसके अभियुक्तगण- 1. मेराज, 02. अतीकुर्रहमान वांछित चल रहे थे। अभियुक्तगणों के विरुद्ध थाना कोतवाली नगर पुलिस द्वारा विधिक कार्यवाही की गई।

गिरफ्तार अभियुक्तगण-

01. मेराज पुत्र गुलाम मोहम्मद निवासी सराय खास थाना रेहरा बाजार जनपद बलरामपुर।
02. अतीकुर्रहमान पुत्र बौदुलरहमान निवासी डफल पुरवा मौजा बैरिया थाना रेहरा बाजार जनपद बलरामपुर।

गिरफ्तारी का स्थान

रेलवे क्रॉसिंग के पास गोण्डा

गिरफ्तार कर्ता टीम

उ0नि0 भानू प्रताप सिंह मय टीम

सराहनीय कार्य
प्रेसनोट
मीडिया सेल, जनपद गोण्डा
दिनांक 29.01.2023

थाना कटराबाजार पुलिस ने गुण्डा घोषित 03 नफर अभियुक्तों को किया जिला बदर –

जिला मजिस्ट्रेट गोण्डा के आदेश दिनांक 23.01.2023 के अनुपालन में पुलिस अधीक्षक गोण्डा आकाश तोमर के निर्देशन व अपर पुलिस अधीक्षक गोण्डा शिवराज के पर्यवेक्षण में प्रभारी निरीक्षक मनोज कुमार राय के कुशल नेतृत्व में कटराबाजार पुलिस द्वारा 03 जिला बदर अभियुक्तों-01. रईस अहमद, 02. बृजेश शुक्ला उर्फ पिंटू शुक्ला, 03. लल्लन पांडे के विरुद्ध मुनादी कराकर नियमानुसार जिला बदर की कार्यवाही करते हुए 06 माह की अवधि के लिए जनपद की सीमा से बाहर किया गया।

अपराधियों का विवरण-

01. रईस अहमद पुत्र रशीद अहमद निवासी ग्राम सिसई जोगा थाना कटरा बाजार जनपद गोण्डा।
02. बृजेश शुक्ला उर्फ पिंटू शुक्ला पुत्र स्व0 बजरंग बिहारी नि0 ग्राम सर्वांगपुर थाना कटरा बाजार जनपद गोंडा।
03. लल्लन पांडे पुत्र पारसनाथ पांडे निवासी बख्शी पुरवा मौजा चरेरा थाना कटरा बाजार जनपद गोंडा।

सराहनीय कार्य
प्रेस नोट
मीडिया सेल, जनपद गोण्डा
दिनांक 29.01.2023

अवैध मादक पदार्थ के साथ 01 अभियुक्त गिरफ्तार-

पुलिस अधीक्षक गोण्डा आकाश तोमर ने अपराध एवं अपराधियों के खिलाफ चलाये जा रहे अभियान में अवैध मादक पदार्थों की तस्करी व बिक्री में संलिप्त अभियुक्तों के विरुद्ध कड़ी कार्यवाही करने के निर्देश जनपद के समस्त प्रभारी निरीक्षक/थानाध्यक्षों को दिये थे।

उक्त निर्देश के अनुक्रम में थाना कौडिया पुलिस द्वारा अभियुक्त रमेश मोर्य को गिरफ्तार कर उसके कब्जे से 475 ग्राम नाजायज गांजा बरामद किया गया। उक्त अभियुक्त का दिनांक 28.01.2023 को सोशल मीडिया में गांजा बेचते हुए वीडियो वायरल हुआ था। अभियुक्त के विरुद्ध थाना कौडिया में एन0डी0पी0एस0 ऐक्ट के तहत अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की गयी।

गिरफ्तार अभियुक्त-

01. रमेश मोर्य पुत्र अयोध्या प्रसाद मोर्य निवासी आर्य नगर छितौनी थाना कौडिया जनपद गोंडा।

पंजीकृत अभियोग-

01. मु0अ0सं0-26/23, धारा 8/20 एन0डी0पी0एस0 ऐक्ट थाना कौडिया जनपद गोण्डा।

बरामदगी-

01. 475 ग्राम नाजायज गांजा

गिरफ्तार कर्ता-

उ0नि0 दिलीप कुमार सिंह मय टीम।